

प्रेस विज्ञापित
थाना दीदारगंज

चोरी की 05 मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस के साथ शांति अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वान्छित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 19.09.2020 को थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उनी जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा व हेका मंजु यादव व कान्स दीवाकर सिंह व कान्स राजू गौड़ व कान्स टार्जन गौड़ व कान्स प्रमोद यादव मका अनामिका सिंह सेंगर मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी एवं वारंटी की तलाश, संदिग्ध वाहनो एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग सिसवारा -गम्भीरपुर रोड गोसड़ी नहर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे कि सिसवारा कि ओर से दो मोटरसाइकिल पर एक-एक व्यक्ति आते हुये दिखाई दिये कि पुलिस वालो को देखकर संदिग्ध अवस्था में मो सा सवार दोनो व्यक्ति अपनी-अपनी मोसा मोड़ कर वापस भागने का प्रयास करने लगे कि अचानक मोसा सवार एक व्यक्ति ने पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहा से फायर कर दिया कि हम पुलिस वाले सिखलाये तरीके से अपना बचाव किये और बाल बाल बच गये मोसा सवार अचानक तभी गिर गये तभी बदमाश की आंशका पर हम पुलिस वालो ने घेर दौड़कर आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करके समय करीब 05.00 बजे सुबह एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा दूसरा व्यक्ति मोटर सायकिल छोड़कर धान के खेतों से अन्धेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम श्रीकान्त राम पुत्र कमलेश राम निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने हुए पैण्ट की फेंट (बायीं)से खुसा हुआ एक अदद तमंचा देशी .315 बोर बरामद हुआ तथा पैण्ट की दाहिनी जेब से एक अदद कारतूस जिन्दा .315 बोर बरामद हुआ तमंचा व कारतूस रखने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा। भागे गये व्यक्ति अभियुक्त के बारे में पूछने पर उसका नाम श्याम बचन उर्फ अन्तु पुत्र स्व रामश्री निवासी ग्राम अरारा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया व बताया कि श्याम बचन उर्फ अन्तु ही पल्सर काले रंग की मोसा को चला रहा था तथा इसी ने ही पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहा से फायर किया था जो अभी -2 मोसा पल्सर छोड़कर भाग गया है और हम लोगो का एक गैंग है, हम लोग मिलकर मोसा की चोरी करते है तथा उसका नम्बर प्लेट बदलकर फिर उनको बेचकर पैसा कमाते है, मैं व श्याम बचन उर्फ अन्तु ने मिलकर जनपद जौनपुर व आस-पास के जनपदो से कई मोटर सायकिले चुरायी है, मेरे पास जो मोसा है उन्ही मे से 02 मोसा को लेकर आज मैं व श्याम बचन उर्फ अन्तु ग्राहक की तलाश में जा रहा था कि आप मिले व मुझे पकड़ लिया श्याम बचन उर्फ अन्तु मौके से भाग गया है कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि इन मोटर साइकिलों के अलावा मेरे पास 03 मोसा जिन्हे अभियुक्त के बताये गये से स्थान से प्राप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्य अमल मे लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त श्रीकान्त राम पुत्र कमलेश अपने साथियों के साथ मोटर साइकिल चोरी व उन्हे बेचने का काम करता है। अभी तो द्वारा बताया गया कि उससे गलती हो गई पुनः भविष्य मे इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। शेष बयान मा न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से बताना प्रकट कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग

- (1) मुअसं 158/2020 धारा 307/41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- (2) मुअसं 159/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- (1) श्रीकान्त राम पुत्र कमलेश राम निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

- 1) मुअसं 158/2020 धारा 307/41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- (2) मुअसं 159/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्त का नाम व पता:-

- (1) श्याम बचन उर्फ अन्तु पुत्र स्व रामश्री निवासी ग्राम अरारा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास

- (1) मुअसं 158/2020 धारा 307/41/411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- (2) मुअसं 135/2020 धारा 307 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- (3) मुअसं 107/2019 धारा 379,411 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
- (4) मुअसं 82/2019 धारा 379 भादवि थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।
- (5) मुअसं 237/19 धारा 41/411,413,419,420,467,468,471 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

- (1) एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- (2) 05 अदद चोरी की मोटर साइकिले।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) SO धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दीदारगंज मय हमराह जनपद आजमगढ़
- (2) उनी जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा थाना दीदारगंज मय हमराह जनपद आजमगढ़।